

लैंसडौन का नाम बदलकर 'कालों का डांडा' रखने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड के पौड़ी ज़िले में स्थिति 132 साल पुराने लैंसडौन छावनी ने लैंसडौन का नाम 'कालों का डांडा (काले बादलों से घरिा पहाड़)' रखने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है।

प्रमुख बदि

- रक्षा मंत्रालय के आर्मी हेड क्वार्टर ने सब एरिया उत्तराखण्ड से ब्रिटिशकाल में छावनी क्षेत्रों की सड़कों, स्कूलों, संस्थानों, नगरों और उपनगरों के रखे नामों को बदलने के लयि प्रस्ताव मांगे हैं।
- रक्षा मंत्रालय ने उनसे ब्रिटिशकाल के समय के नामों के स्थान पर क्या नाम रखे जा सकते हैं, इस बारे में भी सुझाव देने को कहा गया है। इसी के तहत लैंसडौन छावनी ने इसका नाम 'कालों का डांडा' रखने का प्रस्ताव भेजा है। पहले इसे 'कालों का डांडा' पुकारा जाता था। स्थानीय लोग इसका नाम यही रखने की मांग वर्षों से करते आए हैं। रक्षा मंत्रालय को भी इस बाबत कई पत्र भेजे जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि 1886 में गढ़वाल रेजीमेंट की स्थापना हुई थी। 5 मई, 1887 को लेखकर्नल मेरवगि के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बनी पहली गढ़वाल रेजीमेंट की पलटन 4 नवंबर 1887 को लैंसडौन पहुँची थी। उस समय लैंसडौन को 'कालों का डांडा' कहते थे। 21 सितंबर, 1890 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर इसका नाम लैंसडौन रखा गया।